

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019 — माघ 3, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्रमांक 868/डी. 13/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19-01-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 1 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|--|----|--|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.</p> <p>(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर राजपत्र में राजिम कुंभ (कल्प) मेला क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाये.</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.</p> |
| मूल अधिनियम का
संशोधन. | 2. | <p>छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) में,-</p> <p>(क) प्रस्तावना में, शब्द “कुंभ (कल्प) मेला” के स्थान पर, शब्द “माघी पुन्नी मेला” प्रतिस्थापित किया जाये;</p> <p>(ख) धारा 1 की उप-धारा (1) में, संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006” के स्थान पर, संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006” प्रतिस्थापित किया जाये; और</p> <p>(ग) जहां कहीं भी शब्द “कुंभ (कल्प) मेला” आया हो, के स्थान पर, शब्द “माघी पुन्नी मेला” प्रतिस्थापित किया जाये.</p> |
| धारा 2 का संशोधन. | 3. | <p>मूल अधिनियम में, धारा 2 में, खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-</p> <p>“(7) “मेला” से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला माघी पुन्नी मेला;”</p> |

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्रमांक 868/डी. 13/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-01-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2019)

THE CHHATTISGARH RAJIM KUMBH (KALP) MELA (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|------|--|---|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela (Amendment) Act, 2019. | Short
extent
and
commencement. |
| | (2) | It shall extend to such area as may be notified in the Official Gazette, by the State Government, as the Rajim Kumbh (Kalp) Mela Area, from time to time. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006), - | Amendment of
the Principal Act. |
| | (a) | in the preamble, for the words “Kumbh (Kalp) Mela”, the words “Maghi Punni Mela” shall be substituted; | |
| | (b) | in sub-section (1) of Section 1, for the short title “the Chhattisgarh Rajim Kumbh (Kalp) Mela Act, 2006”, the short title “the Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Mela Act, 2006” shall be substituted; and | |
| | (c) | for the word “Kumbh (Kalp) Mela”, wherever they occur, the word “Maghi Punni Mela” shall be substituted. | |
| 3. | | In the Principal Act, in Section 2, for clause (7), the following shall be substituted, namely :- | Amendment of
Section 2. |
| | “(7) | “Mela” means Maghi Punni Mela at Rajim held every year;” | |